

CLASS : 12th (Sr. Secondary)

Code No. 5608

Series : SS-April/2021

Roll No.

SET : C

लेखाशास्त्र

ACCOUNTANCY

भाग - II

PART - II

(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

(Objective Questions)

ACADEMIC/OPEN

[हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम]

[Hindi and English Medium]

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

- कृपया जाँच कर लें कि भाग-II के इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 16 तथा प्रश्न 44 (16 + 14 + 14) हैं।

Please make sure that the printed pages in this question paper of Part-II are 16 in number and it contains 44 (16 + 14 + 14) questions.

- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।

Candidates must write their Roll Number on the question paper.

- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.**

सामान्य निर्देश :

- (i) यह प्रश्न-पत्र तीन भागों में विभाजित है :

भाग - अ : अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते।

भाग - ब : कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण।

भाग - स : कम्प्यूटरीकृत लेखांकन।

5608/(Set : C)/ II

P. T. O.

- (ii) **भाग - अ अनिवार्य है।** परीक्षार्थी अपनी इच्छा से **भाग - ब** तथा **भाग - स** में से कोई एक भाग हल करें।
- (iii) **सभी प्रश्न हल करने हैं।** प्रत्येक प्रश्न **1 अंक का है। सही** उत्तर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए।

General Instructions :

- (i) This question paper is divided into **three** Parts :
- Part - A :** Not for Profit Organizations & Partnership Accounts.
- Part - B :** Company Accounts & Analysis of Financial Statements.
- Part - C :** Computerized Accounting.
- (ii) **Part - A is compulsory.** Candidates have to attempt any **one** part from **Part - B** and **Part - C** of their choice.
- (iii) **All** questions are to be attempted. Each question carries **1** mark. Write the **correct** answer in your answer-book.

भाग - अ

PART - A

(अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते)

(Not for Profit Organizations & Partnership Accounts)

1. आय-व्यय खाते में लिखे जाते हैं के लेनदेन। 1
- (A) केवल आयगत प्रकृति (B) केवल पूँजीगत प्रकृति
- (C) दोनों आयगत तथा पूँजीगत प्रकृति (D) कोई भी नहीं
- Income and Expenditure Account record transactions of :
- (A) Revenue nature only (B) Capital nature only
- (C) Both Revenue and Capital nature (D) None of these
2. लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्था की आय का साधन है : 1
- (A) सदस्यों से प्राप्त चन्दा (B) दान
- (C) प्रवेश शुल्क (D) उपरोक्त सभी
- Source of Income for a not-for-profit organization is :
- (A) Subscription from members (B) Donation
- (C) Entrance fees (D) All of the above

3. साझेदारों का दायित्व : 1
- (A) सीमित होता है (B) असीमित होता है
(C) न्यायालय द्वारा निर्धारित होता है (D) साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित होता है
- Liability of a Partner is :
- (A) Limited (B) Unlimited
(C) Determined by Court (D) Determined by Partnership Act
4. साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को पूँजी पर ब्याज दिया जाता है : 1
- (A) 5% प्रतिवर्ष (B) 6% प्रतिवर्ष
(C) 12% प्रतिवर्ष (D) ब्याज नहीं दिया जाता
- In the absence of Partnership deed, the interest is allowed on Partner's Capital :
- (A) @ 5% p. a. (B) @ 6% p. a.
(C) @ 12% p. a. (D) No interest is allowed
5. पुनर्मूल्यांकन खाता है : 1
- (A) वास्तविक खाता (B) व्यक्तिगत खाता
(C) नाममात्र खाता (D) सम्पत्ति खाता
- Revaluation Account is a :
- (A) Real Account (B) Personal Account
(C) Nominal Account (D) Asset Account
6. जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लाता है, तो इसे क्रेडिट किया जाएगा : 1
- (A) उसके पूँजी खाते में (B) त्याग करने वाले साझेदारों के पूँजी खातों में
(C) पुराने साझेदारों के पूँजी खातों में (D) सभी साझेदारों के पूँजी खातों में

When a new partner brings goodwill in cash, it is credited to :

- (A) His Capital A/c (B) Sacrificing Partners Capital A/c
(C) Old Partners Capital A/c (D) All Partners Capital A/c

7. 'ए' तथा 'बी' लाभ-हानि को 4 : 1 के अनुपात में बाँटते हुए साझेदार हैं। 'ए' अपने हिस्से का $\frac{1}{4}$ तथा 'बी' अपने हिस्से का $\frac{1}{2}$ 'सी' के पक्ष में त्याग करते हैं जो कि एक नया साझेदार है। सी का हिस्सा क्या होगा ? 1

- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{1}{5}$
(C) $\frac{1}{10}$ (D) $\frac{3}{10}$

'A' and 'B' are partners sharing profit and loss in the ratio of 4 : 1. 'A' surrenders $\frac{1}{4}$ of his share and 'B' surrenders $\frac{1}{2}$ of his share in favour of 'C', a new partner. What will be the 'C's share ?

- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{1}{5}$
(C) $\frac{1}{10}$ (D) $\frac{3}{10}$

8. जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद में नहीं लाता, तो उस राशि को डेबिट करेंगे : 1

- (A) रोकड़ खाते में (B) प्रीमियम खाते में
(C) नये साझेदार के चालू खाते में (D) पुराने साझेदारों के पूँजी खाते में

When new partner doesn't bring his share of goodwill in cash, the amount is debited to :

- (A) Cash A/c (B) Premium A/c
(C) Current A/c of new partner (D) Capital A/cs of old partners

9. किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर ख्याति का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है ? 1

(A) Remaining Partner's Capital A/c Dr. (In Gaining Ratio)

To Retiring Partner's Capital A/c

(B) Remaining Partner's Capital A/c Dr. (In New Ratio)

To Retiring Partner's Capital A/c

(C) Goodwill A/c Dr.

To All Partner's Capital A/cs (In Old Ratio)

(D) Goodwill A/c Dr.

To Retiring Partner's Capital A/c (In Old Ratio)

How goodwill is recorded on the retirement of a Partner ?

(A) Remaining Partner's Capital A/c Dr. (In Gaining Ratio)

To Retiring Partner's Capital A/c

(B) Remaining Partner's Capital A/c Dr. (In New Ratio)

To Retiring Partner's Capital A/c

(C) Goodwill A/c Dr.

To All Partner's Capital A/cs (In Old Ratio)

(D) Goodwill A/c Dr.

To Retiring Partner's Capital A/c (In Old Ratio)

10. 'ए', 'बी' और 'सी' साझेदार हैं जो 4 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते हैं। 'सी' अवकाश ग्रहण करता है। 'ए' और 'बी', 'सी' के हिस्से को बराबर-बराबर बाँट लेते हैं। नया लाभ-विभाजन अनुपात होगा : 1

(A) 5 : 2 (B) 5 : 3

(C) 9 : 5 (D) 4 : 2

'A', 'B' and 'C' have been sharing profits in the ratio of 4 : 2 : 1. 'C' retires. 'A' and 'B' take 'C's share equally. New profit sharing ratio will be :

- (A) 5 : 2 (B) 5 : 3
(C) 9 : 5 (D) 4 : 2

11. फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है :

1

- (A) पूँजी भुगतान (B) व्यय
(C) पूँजी प्राप्ति (D) आय

For the firm interest on drawings is :

- (A) Capital Payment (B) Expenses
(C) Capital Receipt (D) Income

12. साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाएगा :

1

- (A) 5% वार्षिक की दर से (B) 6% वार्षिक की दर से
(C) 7.5% वार्षिक की दर से (D) 12% वार्षिक की दर से

In the absence of partnership deed, the allowable rate of interest on partner's loan account will be :

- (A) @ 5% p.a. (B) @ 6% p.a.
(C) @ 7.5% p.a. (D) @ 12% p.a.

13. साझेदारों की पूँजी परिवर्तनशील होने पर कौन-से खाते खोले जाते हैं ?

1

- (A) केवल पूँजी खाते (B) केवल चालू खाते
(C) पूँजी खाते तथा चालू खाते (D) पूँजी खाते अथवा चालू खाते

Which accounts are opened when the capital are fluctuating ?

- (A) Only Capital Accounts
 (B) Only Current Accounts
 (C) Capital Accounts as well as Current Accounts
 (D) Either Capital Accounts or Current Accounts

14. यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को एक निश्चित राशि आहरण करता है, तो आहरण की कुल राशि पर माह का ब्याज लगाया जाता है। 1

- (A) 12 (B) $6\frac{1}{2}$
 (C) $5\frac{1}{2}$ (D) 6

If a fixed amount is withdrawn by a partner on the last day of every month, interest on the total amount is charged for months.

- (A) 12 (B) $6\frac{1}{2}$
 (C) $5\frac{1}{2}$ (D) 6

15. 'ए' तथा 'बी' एक फर्म में लाभ-हानि को 2 : 1 में बाँटते हैं। 1 जनवरी, 2019 से वे लाभ हानियों को समान अनुपात में बाँटने को सहमत हुए। लाभ-हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण प्रत्येक का लाभ प्राप्ति अथवा त्याग का परिहर्सा होगा : 1

- (A) लाभ प्राप्ति 'अ' $\frac{1}{6}$, त्याग 'ब' $\frac{1}{6}$ (B) त्याग 'अ' $\frac{1}{6}$, लाभ प्राप्ति 'ब' $\frac{1}{6}$
 (C) लाभ प्राप्ति 'अ' $\frac{1}{2}$, त्याग 'ब' $\frac{1}{2}$ (D) त्याग 'अ' $\frac{1}{2}$, लाभ प्राप्ति 'ब' $\frac{1}{2}$

'A' and 'B' were partners sharing profit and losses in the ratio of 2 : 1. With effect from 1st January, 2019, they agreed to share profits & losses equally. Individual partner's gain or sacrifice due to change will be :

- (A) Gain by 'A' $\frac{1}{6}$, Sacrifice by 'B' $\frac{1}{6}$ (B) Sacrifice by 'A' $\frac{1}{6}$, Gain by 'B' $\frac{1}{6}$
 (C) Gain by 'A' $\frac{1}{2}$, Sacrifice by 'B' $\frac{1}{2}$ (D) Sacrifice by 'A' $\frac{1}{2}$, Gain by 'B' $\frac{1}{2}$

16. वर्तमान साझेदारों के सम्बन्धों में कोई भी परिवर्तन जिससे वर्तमान ठहराव समाप्त हो जाता है और एक नया ठहराव करना पड़ता है तो इसे कहा जाता है : 1

- (A) साझेदारी का पुनर्मूल्यांकन (B) साझेदारी का पुनर्गठन
(C) साझेदारी की वसूली (D) इनमें से कोई भी नहीं

Any change in the relationship of existing partners which results in an end of existing agreement and make a new agreement is called :

- (A) Revaluation of Partnership (B) Reconstitution of Partnership
(C) Realization of Partnership (D) None of the above

भाग - ब

PART - B

(कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

(Company Accounts & Analysis of Financial Statements)

17. विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति को कहा जाता है : 1

- (A) एकाकी व्यवसाय (B) साझेदारी फर्म
(C) कम्पनी (D) उपरोक्त सभी

An artificial person created by Law is called :

- (A) Sole Tradership (B) Partnership Firm
(C) Company (D) All of the above

18. कम्पनी के वास्तविक स्वामी कौन होते हैं ? 1

- (A) सरकार (B) संचालक मंडल
(C) समता अंशधारी (D) ऋणपत्रधारी

Who are the real owners of a Company ?

- (A) Government (B) Board of Directors
(C) Equity shareholders (D) Debentureholders

19. अंशधारियों को कम्पनी से मिलता है : 1

- (A) ब्याज (B) कमीशन
(C) लाभ (D) लाभांश

Shareholders receive from the Company :

- (A) Interest (B) Commission
(C) Profit (D) Dividend

20. जो व्यक्ति कम्पनी की पूँजी में धन लगाता है उसे कहा जाता है : 1

- (A) लेनदार (B) विनियोजक
(C) अंशधारी (D) ऋणदाता

A person who invests in the capital of a company is called :

- (A) Creditor (B) Investor
(C) Shareholder (D) Lender

21. संचित पूँजी को निम्न नाम से भी पुकारा जाता है : 1

- (A) पूँजीगत संचय (B) मांगी गई पूँजी
(C) प्रार्थित पूँजी (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Reserve Capital is also known by :

- (A) Capital Reserve (B) Called up Capital
(C) Subscribed Capital (D) None of the above

22. जो व्यक्ति कम्पनी को आरंभ करते हैं, उन्हें कहा जाता है : 1

- (A) अंशधारी (B) संचालक
(C) प्रवर्तक (D) अंकेक्षक

Persons who start a company are called :

- (A) Shareholders (B) Directors
(C) Promoters (D) Auditors

23. एक ऋणपत्रधारी अधिकारी होता है : 1

- (A) स्थिर लाभांश (B) लाभों में हिस्सा
(C) कम्पनी में वोटिंग अधिकार (D) निश्चित दर से ब्याज

A debentureholder is entitled to :

- (A) Fixed Dividend (B) Share in Profits
(C) Voting rights in a Company (D) Interest at fixed rate

24. कम्पनी के समापन पर ऋणपत्रों के मूलधन की वापसी होती है : 1

- (A) सबसे पहले (B) सबसे बाद में
(C) समता अंश पूँजी से पहले (D) समता अंश पूँजी के बाद

On liquidation of a Company, principal amount of debenture is returned :

- (A) First of all (B) Last of all
(C) Before equity capital (D) After equity capital

25. सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए गए ऋणपत्रों पर ब्याज दिया जाता है : 1

- (A) ऋणपत्रों के अंकित मूल्य पर (B) कोई ब्याज नहीं दिया जाता
(C) ऋणपत्रों के छपे हुए मूल्य पर (D) ऋणपत्रों के चुकता मूल्य पर

Interest on debentures issued as collateral security is paid on :

- (A) Nominal value of debentures (B) No interest is paid
(C) Face value of debentures (D) Paid up value of debentures

26. ऋणपत्रों का शोधन किया जा सकता है : 1

- (A) वार्षिक आहरण द्वारा (B) खुले बाजार में क्रय करके
(C) परिवर्तन द्वारा (D) उपरोक्त सभी से

Debentures can be redeemed :

- (A) By annual drawings (B) By purchase in open market
(C) By conversion (D) By all of the above

5608/(Set : C)/ II

27. सिंकिंग फण्ड विनियोगों का ब्याज क्रेडिट किया जाएगा :

1

- (A) लाभ-हानि विवरण में
- (B) सामान्य संचय खाते में
- (C) सिंकिंग फण्ड विनियोग खाते में
- (D) सिंकिंग फण्ड खाते में

Interest on Sinking Fund Investment will be credited to :

- (A) Statement of Profit & Loss
- (B) General Reserve Account
- (C) Sinking Fund Investment Account
- (D) Sinking Fund Account

28. ऋणपत्र शोधन प्रीमियम खाता है :

1

- (A) व्यक्तिगत खाता
- (B) वास्तविक खाता
- (C) नाममात्र खाता
- (D) उपरोक्त सभी

Premium on redemption of debentures Account is :

- (A) Personal Account
- (B) Real Account
- (C) Nominal Account
- (D) All of the above

29. आरक्षित पूँजी है : 1

- (A) प्रदत्त पूँजी का भाग
 (B) जब्त अंश पूँजी का भाग
 (C) सम्पत्ति का भाग
 (D) कम्पनी के समापन पर माँगे जाने वाली पूँजी का भाग

Reserve Capital is a part of :

- (A) Paid up Capital
 (B) Forfeited Share Capital
 (C) Assets
 (D) Capital to be called up only on liquidation of Company

30. एक कम्पनी का पूर्वाधिकार अंश प्रतिनिधित्व करता है : 1

- (A) ऋण का (B) पूँजी का
 (C) लाभांश का (D) सम्पत्ति का

Preference share of a company represents :

- (A) Loan (B) Capital
 (C) Dividend (D) Assets

भाग - स

PART - C

(कम्प्यूटरीकृत लेखांकन)

(Computerized Accounting)

17. एक सम्पत्ति है जो एक इकाई की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करती है। 1

- (A) ई आर डायग्राम (B) स्तंभ
 (C) संबंध (D) एट्रीब्यूट

..... is a property that describes various characteristics of an entity.

- (A) ER Diagram (B) Column
 (C) Relationship (D) Attribute

5608/(Set : C)/ II

18. स्तर बताता है कि डेटा कौन-सा डेटा डेटाबेस में संग्रहित है और उनके बीच क्या संबंध है। 1

- (A) शारीरिक स्तर (B) लॉजिकल स्तर
(C) वैचारिक स्तर (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

..... level describes what data is stored in the database and relationship among the data ?

- (A) Physical Level (B) Logical Level
(C) Conceptual Level (D) None of these

19. व्युत्पन्न विशेषताएँ बताता है। 1

- (A) डबल दीर्घवृत्त
(B) डैशड दीर्घवृत्त
(C) स्क्वायर्ड दीर्घवृत्त
(D) विशेषता नाम के साथ दीर्घवृत्त

..... denote derived attributes.

- (A) Double ellipse
(B) Dashed ellipse
(C) Squared ellipse
(D) Ellipse with attribute name

20. न्यूनतम सुपर कुंजी है। 1

- (A) प्राथमिक कुंजी (B) उम्मीदवार कुंजी
(C) अद्वितीय कुंजी (D) वैकल्पिक कुंजी

..... is the minimal super key.

- (A) Primary Key (B) Candidate Key
(C) Unique Key (D) Alternate Key

21. डिस्क भंडारण पर स्थान के आबंटन का प्रबन्ध करता है। 1

- (A) डिस्क मैनेजर (B) फाइल मैनेजर
(C) मेमोरी मैनेजर (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

..... manages the allocation of the space on the disk storage.

- (A) Disk Manager (B) File Manager
(C) Memory Manager (D) None of the above

22. विदेशी कुंजी शून्य हो सकती है। (सत्य/असत्य) 1

Foreign Key can be null. (True/False)

23. संबंधपरक मॉडल का उपयोग करके हम अवधारणा वैचारिक डेटाबेस डिजाइन तैयार कर सकते हैं। 1

(सत्य/असत्य)

Using relational model we design conceptual database design. (True/False)

24. तालिकाओं में कम से कम एक स्तंभ होना आवश्यक है। (सत्य/असत्य) 1

Tables are required to have at least one column. (True/False)

25. उम्पीदवार कुंजी शून्य हो सकती है। (सत्य/असत्य) 1

Candidate Key can have a null value. (True/False)

26. सॉफ्टवेयर के लिए आसान होना चाहिए। 1

- (A) स्थापित करने (B) अनुकूलन
(C) समझने में (D) इनमें से सभी

A Software must be easy to

- (A) Install (B) Adapt
(C) Understand (D) All of the above

5608/(Set : C)/ II

27. टेलर मेड सॉफ्टवेयर के क्या लाभ हैं ? 1

- (A) बने-बनाए सॉफ्टवेयर हैं (B) कम लागत के हैं
(C) डाटा की उच्च सुरक्षा है (D) इनमें से कोई नहीं

What is the advantage of Tailor made Software ?

- (A) These are ready-made software (B) Low cost
(C) High secrecy of data (D) None of the above

28. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन की क्या विशेषताएँ हैं ? 1

- (A) डाटा को स्टोर करना
(B) जल्दी रिपोर्ट तैयार करना
(C) विभिन्न खातों का समूह
(D) उपरोक्त सभी

What are the features of Computerized Accounting System ?

- (A) Storage of accounting data
(B) Instantly produces different reports
(C) Group of different accounts
(D) All of the above

29. लेखांकन सॉफ्टवेयर को प्रयोग में लाने के लिए किन तत्त्वों पर ध्यान दिया जाता है ? 1

- (A) लचीलापन (B) अनुकूलता
(C) प्रबंधन का विश्वास (D) (A) और (B) दोनों

What are the factors to be considered while using accounting software ?

- (A) Flexibility (B) Adaptability
(C) Interest of Management (D) Both (A) and (B)

30. डाटा है :

1

(A) सूचना

(B) तथ्यों का समूह

(C) (A) और (B) दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं

Data is :

(A) Information

(B) Collection of facts

(C) Both (A) and (B)

(D) None of these

downloaded from
StudentSuvidha.com